

NIIT Limited

85, Sector-32, Institutional Gurgaon 122001, India Tel: +91 (124) 4293000 Fax: +91 (124) 4293333 Email: info@niit.com

Registered Office: 8, Balaji Estate, First Floor Guru Ravi das Marg, Kalkaji New Delhi 110 019, India CIN: L74899DL1981PLC015865

www.niit.com

January 12, 2021

The Manager BSE Limited

Corporate Relationship Department, 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001 The Manager National Stock Exchange of India Limited

Listing Department Exchange Plaza 5th Floor, Plot no C/1, G Block Bandra Kurla Complex Bandra (E),Mumbai – 400 051

Subject: Intimation under Regulation 47 read with Regulation 30(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 – newspaper publication of Postal Ballot Notice

Scrip Code: BSE - 500304; NSE - NIITLTD

Dear Sir/Madam,

This is in continuation to our letter dated January 11, 2021 informing Postal Ballot Notice being sent to the Shareholders of the Company with regard to the proposal for buyback of up to 9,875,000 fully paid-up Equity Shares of the Company of face value INR 2/- each at INR 240/- per Equity Share for an aggregate amount not exceeding Rs. 2,370,000,000 (Rupees Two Thousand Three hundred and Seventy million only).

In this regard, please be informed that the Company has published newspaper advertisements on January 12, 2021 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi). Please find attached herewith copy of the newspaper publications for your record.

Thanking you,

Yours truly, For **NIIT Limited**

Deepak Bansal Company Secretary & Compliance Officer

Encls: a/a

FINANCIAL EXPRESS



NEWGEN SOFTWARE TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L72200DL1992PLC049074

Regd. Office: A-6, Satsang Vihar Marg, Qutab Institutional Area,
New Delhi – 110067, Tel.: +91-11-40770100, 26963571,
Fax: +91-11-26856936, Website: https://newgensoft.com Email: investors@newgensoft.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 20th January 2021, inter alia, to consider and approve the unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the 3rd Quarter ended 31st December 2020.

The said information is also available on the website of the Company a https://newgensoft.com and website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com

For Newgen Software Technologies Limited

Aman Mourya

Company Secretary & Compliance Officer



Date: 11.01.2021

Place: New Delhi

MOLD-TEK PACKAGING LIMITED

CIN: L21022TG1997PLC026542 Regd. Off: 8-2-293/82/A/700, Ground Floor, Road No 36, Jubilee Hills, Hyderabad-

500033. Telangana. India. Ph No: 040-40300300. Fax No:040-40300328 Email:cs@moldtekpackaging.com, Website: www.moldtekgroup.com

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 19" January, 2021 at the registered office of the company situated at Plot No. 700, Ground Floor, Jubilee Hills, Road No. 36, Hyderabad 500033. Telangana, India, inter-alia, to consider approve and take on record the un-audite Financial Results - Consolidated and Standalone of the Company for the guarter ended on 31

The information contained in this notice is also available on the Company's website www.moldtekgroup.com and the website of Stock Exchanges where the Company's shares are listed i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com). For Mold-Tek Packaging Limited

Date: 11.01.2021 Place: Hyderabad

Thakur Vishal Singh (Company Secretary)

Nidhi Granites Limited CIN NO: L51900MH1981PLC025677

Regd. Office:9, Popat Bapa Shopping Centre, 2nd Floor Station Road, Santacruz (West), Mumbai 400054 Email: pushpraj0201@gmail.com , Tel No: 022 648 5481

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31 DECEMBER, 2020 (Rs. in thousands)

Website: www.nidhigranites.com

Sr. No.	Particulars	Quarter	Quarter	Quarter
NO.		Ended	Ended	Ended
		31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from operations (net)	267.85	83.00	(3,315.91)
2	Net Profit / (Loss) for the period			
	(before Tax, Exceptional and/or			
	Extraordinary items)	(107.30)	(176.00)	(3,315.91)
3	Net Profit / (Loss) for the period			
	before tax (after Exceptional			
	and/or Extraordinary items)	(107.30)	(176.00)	605.92
4	Net Profit / (Loss) for the period			
	after tax (after Exceptional and/or			
	Extraordinary items)	(107.30)	(176.00)	-2709.99
5	Equity Share Capital	7,500.00	7,498.00	12,983.60
6	Reserves (excluding Revaluation			
	Reserve as shown in the Balance			
	Sheet of previous year)	12,983.60	12,414.00	12,983.60
7	Earnings Per Share of Rs. 10 Each			
	(before extraordinary items)			
	Basic :	(0.14)	(0.23)	(3.61)
	Diluted:	(0.14)	(0.23)	(3.61)
8	Earnings Per Share of Rs. 10 Each			
	(after extraordinary items)			
	Basic :	(0.14)	(0.23)	(3.61)
	Diluted:	(0.14)	(0.23)	(3.61)

Note: 1. The aforementioned results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity. (URL of the filings i.e. www.bseindia.com & www.nidhigranites.com)

As the Company has only one business segment, disclosure under Indian Accounting Standard 108 on "Operating Segment" issued by the Institute of Chartered Accountants of India is not applicable.

Date: 11.01.2021 Place: Mumbai

For NIDHI GRANITES Nidhi Aggarwal **Managing Director** Din:00785248

NIIT

NIIT LIMITED

CIN: L74899DL1981PLC015865 Regd. Office: 8, Balaji Estate, First Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi 110019 Ph. No.: 011-41675000, Fax No.: 011-41407120 Website: www.niit.com; E-mail: investors@niit.com

Postal Ballot Notice

Members are hereby informed that Pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 (the 'Act"), read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 including any statutory modification(s) or re-enactment thereof, for the time being in force) the "Rules") read with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020 Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 and Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 ("MCA Circulars" ssued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 and other applicable laws and regulations, the Company has sent the Postal Ballot Notice on Monday, January 11, 2021 in electronic mode only, to all those Members whose names appeared in the Register of Members as on Thursday, December 31, 2020 i.e. Cutoff date and who have registered their e-mail address with Company (in respect of shares held in physical form) and/or with their Depository Participants (in respect of shares held in dematerialized form) and made available to the Company by the respective Depositories. The requirements of sending physical copy of the Postal Ballot Notice to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars. In terms of MCA Circulars, the communication of the assent or dissent of the members would take place only through the

The Company is providing facility to its members to cast their votes remotely, using the electronic voting system ("remote e-voting") through National Securities Depositories

The documents pertaining to the item of business to be transacted through Postal Ballo Notice and referred therein, shall be available electronically for inspection by members upon request to the Company by sending email at investors@niit.com.

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing at investors@niit.com along with the copy of signed request letter mentioning the name and address of the shareholders, self attested copy of PAN/ any other identity and address proof. Members can also send request alongwith these documents to the Company at its registered office address or to the Registrar & Share transfer Agent -Alankit Assignments

Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/ update their email addresses with their Depository Participants.

A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners (in case of electronic shareholding) maintained by the depositories as on the cutoff date i.e. Thursday, December 31, 2020 shall be eligible to cast vote by remote e-voting only. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date. The remote e-voting period shall commence on Tuesday, January 12, 2021 (9:00 A.M. IST) and ends on Wednesday, February 10, 2021 (5:00 P.M. IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, it shall not be permitted to change subsequently.

The remote e-voting facility provided by the NSDL is available to the member at the link www.evoting.nsdl.com which would enable the Shareholders to cast their votes electronically.

Detail instructions and information relating to remote e-voting and registration of email addresses are set out in the Postal Ballot Notice sent to the Shareholders and available on the website of the Company i.e. www.niit.com.

Mr. Nityanand Singh, Company Secretary (Membership No. FCS 2668) and failing him Mr Mohit Bansal, Company Secretary (Membership No. ACS 46112) of M/s. Nityanand Singh & Co., Company Secretaries have been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the postal ballot process through remote e-voting in a fair and transparent manner. The result of the Postal Ballot shall be declared by the Chairman of the Company or any

other authorized person of the Company on or before February 12, 2021 and communicated to the stock exchanges, depository, and shall also be displayed on the Company's website .e. www.niit.com and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com. In case of any queries or grievances relating to electronic voting, Members may refer to

Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual available at the download section of https://www.evoting.nsdl.com or contact the officials of NSDL at 1800222990. Members may also write to Company Secretary at investors@niit.com or registered office address of the Company.

By Order of the Board For and on behalf of NIIT Limited Date: January 11, 2021 Deepak Bansal Company Secretary Place: Gurugram

financialexp.epapr.in

For All Advertisement Booking

Call: 0120-6651214



VSP VISHWARAJ SUGAR INDUSTRIES LIMITED CIN: L85110KA1995PLC017730

Regd. Office: Bellad-Bagewadi, Taluka-Hukkeri, District - Belgaum- 591 305, Karnataka Phone: 0833-251251, email: info@vsil.co.in Website: www.vsil.co.in NOTICE

Pursuant to Regulation 29 and 47 read with Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, 18th day of January, 2021 at the Registered office Bellad Bagewadi, Taluka- Hukkeri, District- Belgaum to consider and approve, inter alia, the un-audited financial results of the Company for the quarter ended 31st

This intimation is also available on the Company's website www.vsil.co.in and on the website of www.bseindia.com & www.nseindia.com, where the equity shares of the Company are listed. By order of the Board

Sd/-Sneha Patil Date: 11.01.2021 Company Secretary & Compliance Officer Place: Belgaum

MAFATLAL INDUSTRIES LIMITED

CIN: L17110GJ1913PLC000035 Regd. Office: 301-302, Heritage Horizon, 3rd Floor, Off: C.G. Road, Navrangpura, Ahmedabad-380 009. Tele. No. 079-26444404-06 Fax No. 079-26444403 E-mail: ahmedabad@mafatlals.com Web Site: www.mafatlals.com

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT pursuant to Regulation 29 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Wednesday, 10th day of February, 2021** at Mumbai, inter alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the Quarter ended on 31st December, 2020. Further, We may inform you that pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 as amended read with the Company's Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Insiders, the Trading Window in respect of dealings in the Equity Shares of the Company, remained closed, for all the Directors, Designated (specified) Employees of the Company and "the connected persons" with the Company, from 1st

January, 2021 to 12th February, 2021 (both days inclusive). The trading

window in respect of dealing in the shares of the Company shall reopen

from **13th February**, **2021**. This information is also available on Company's website www.mafatlals.com, as also on the website of the Bombay Stock Exchange Limited www.bseindia.com

Ashish A. Karanji Company Secretary Place : Ahmedabad Dated: 11th January, 2021 ARVIND MARKITAL GROUP

Regd. Office: 42.Gopal Bhawan, 3rd Floor, 199, Princess Street, Mumbai – 400 002. CIN: L65990MH1984PLC033825

NOTICE Notice is hereby given that in order to facilitate consolidation of share certificates, encourage dematerialization of shares and reduce risks of fraud, the Board of directors of the company had approved issuance of new share certificates with re-organized distinctive numbers in exchange of old share certificates with respect to all the shares held by the shareholders in physical form. The company BSE Limited and Calcutta Stock Exchange where the equity shares of the Company are listed, are also Informed about the process

For this purpose, 29th January, 2021 has been fixed as the cut-off date for reckoning the list of shareholders holding shares in physical form, to whom the new share certificate(s) shall be issued. On issue of this notice, all share certificates prior to the issuance of new share certificates as

The Stock Exchange, BSE Limited and Calcutta Stock Exchange, on which the shares of the Company are listed, are informed about the issue of new share certificates to the shareholders of the Company, who hold shares in physical form.

Dematerialized Form (Demat Form). Therefore shareholders are advised to convert the shares from physical form to dematerialized form in order to eliminate all the risks associated with physical shares.

Please feel free to contact the Company's Registrar and Transfer Agents viz. Link Intime India Private Limited in case you have any gueries at C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli

By Order of the Board FOR OLYMPIC MANAGEMENT & FINANCIAL SERVICES LIMITED

Place: Mumbai Pawan Kr Agarwal



Director

FORCE MOTORS LIMITED CIN L34102PN1958PLC011172

Registered Office: Mumbai-Pune Road, Akurdi, Pune - 411 035.

Tel: +91 (20) 27476381 E-mail: compliance-officer@forcemotors.com Website: www.forcemotors.com

POSTAL BALLOT NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to Section 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') read with the Rules made thereunder and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, ('Listing Regulations') 2015, Force Motors Limited (the 'Company') has proposed two resolutions for approval of its Members by postal ballot.

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its circulars dated 8th April 2020, 13th April, 2020 and 5th May 2020, read with General Circular dated 31st December 2020 (the "MCA Circulars") has allowed the companies till 30th June 2021, to obtain approval of shareholders by postal ballot through e-voting only, dispensing with the requirement of obtaining the said approval by sending physical notices and posting of ballots by the shareholders. Accordingly, the Company has sent the postal ballot notice by e-mail to the Members on Monday, 11th January 2021 whose names appeared in the register of members / register of beneficial owners as on Friday, 8th January 2021 (End of Day), after providing sufficient opportunity to the Members who have not registered their email ID, to register the same with the Company or their depository participants. In view of these 'MCA circulars' and in compliance with the provisions of Section 108 and other applicable provisions of the Act read with the Rules made thereunder and Regulation 44 of the Listing Regulations the Company is providing facility to the Members to cast their votes through electronic voting system ('remote e-voting') only on the e-voting platform provided by National Securities Depository Limited ('NSDL').

The voting rights of the Members shall be reckoned with respect to the equity shares held by them as on Friday, 8th January, 2021 (End of Day), being the 'cut-off date' fixed for this purpose. Any person who is not a Member as on the cut-off date should treat this notice for information

Voting period shall commence from Tuesday, 12th January 2021 (9:00 a.m.) and end on Wednesday, 10th February 2021 (5:00 p.m.); after which the remote e-voting facility shall not be allowed.

Company / NSDL and obtain the same. Postal ballot notice is available on the Company's website at www.forcemotors.com and on NSDL's website at www.evoting.nsdl.com. Results of the voting will be announced by Friday, 12th February 2021 at the Registered Office of the Company at Akurdi, Pune - 411 035, by placing the same along with the Scrutinizer's Report on the Company's website at www.forcemotors.com and on NSDL's website at www.evoting.nsdl.com and shall also be communicated to BSE Limited, where the shares of the Company are

In case of any query/grievance connected with remote e-voting, the

 Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, Trade World, 4th Floor, Mumbai - 400 013, E-mail ID: pallavid@nsdl.co.in,

2. Mr. Kishore P. Shah, Company Secretary & Compliance Officer,

Force Motors Limited, Mumbai Pune Road, Akurdi, Pune - 411 035. E-mail ID: compliance-officer@forcemotors.com, Tel. no. +91 (22) 2747 6381.

Kishore P. Shah

This is an advertisement issued, pursuant to Regulation 8(1) of the SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, as amended, for information purposes only.



MUTHOOTTU MINI FINANCIERS LIMITED

(CREDIT RATING: 'IND BBB': OUTLOOK STABLE' BY INDIA RATINGS AND RESEARCH PRIVATE LIMITED)

Muthoottu Mini Financiers Limited ("our Company" or "the Company" or "the Issuer") was originally incorporated as 'Muthoottu Mini Financiers Private Limited', a private limited company under the provisions of the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated March 18, 1998 issued by Registrar of Companies, Kerala and Lakshadweep ("RoC"). Pursuant to a special resolution passed in the general meeting of our Shareholders held on September 14, 2013. our Company was converted into a public limited company and a fresh certificate of incorporation was issued by the RoC on November 27, 2013, and our name was changed to 'Muthoottu Mini Financiers Limited'. Our Company holds a certificate of registration dated April 13, 2002 bearing registration number N -16.00175 issued by the Reserve Bank of India ("RBI") to carry on the activities of a non-banking financial company without accepting public deposits under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Pursuant to the name change of our Company, a fresh certificate of registration dated January 1, 2014, was issued by RBI. For further details about our Company, see "History and Certain Other Corporate Matters" on page 109 of the Prospectus.

Corporate Identification Number: U65910KL1998PLC012154

Registered Office: 2/994, Muthoottu Buildings, Kozhencherry, Pathanamthitta — 689 641, Kerala, India | Tel. No.: +91 468 231 4391 | Fax: NA Corporate Office: Muthoottu Royal Towers, Kaloor, Kochi - 682 017, Kerala, India | Tel. No.: +91 484 291 2100 | Fax: NA

Compliance Officer and Contact Person: Smitha K. S. | Tel. No.: +91 484 291 2178 | Fax: NA

E-mail: cs@minimuthoottu.com | Website: www.muthoottumini.com

PUBLIC ISSUE BY OUR COMPANY OF SECURED, REDEEMABLE, NON-CONVERTIBLE DEBENTURES ("SECURED NCDs") AND UNSECURED, REDEEMABLE, NON-CONVERTIBLE DEBENTURES ("UNSECURED NCDs") OF FACE VALUE OF ₹ 1,000 EACH, ("NCDS") AT PAR, AGGREGATING UP TO ₹ 12,500 LAKHS, HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "BASE ISSUE" WITH AN OPTION TO RETAIN OVER-SUBSCRIPTION UP TO ₹ 12,500 LAKHS AGGREGATING UP TO ₹ 25.000 LAKHS. HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "OVERALL ISSUE SIZE". THE ISSUE IS BEING MADE PURSUANT TO THE PROVISIONS OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2008 AS AMENDED, THE COMPANIES ACT, 2013 AND RULES MADE THEREUNDER, AS AMENDED.

THE FOLLOWING IS A SUMMARY OF THE TERMS OF THE NCDS TO BE ISSUED PURSUANT TO THE PROSPECTUS DATED JANUARY 11, 2021 ("PROSPECTUS").

Tenure	480 Days	24 months	24 months	42 months	66 months	61 months	84 months			
Nature		Secured								
Options	1	П	III	IV	V	VI	VII			
Frequency of Interest Payment	Monthly	Monthly	Cumulative	Monthly	Cumulative	Monthly	Cumulative			
Minimum Application	10 NCDs (₹ 10,000) (across all options of NCDs)									
In multiples, of	5-	1 NCD after the minimum application								
Face Value of NCDs (₹/NCD) ₹ 1,000										
Issue Price (₹/NCD)		₹1,000								
Mode of Interest Payment / Redemption	Through various options available									
Coupon rate % Per Annum	9.25%	9.50%	NA	10.00%	NA	10.25%	NA			
Effective Yield % Per Annum	9.65%	9.92%	9.54%	10.47%	10.71%	10.75%	10.41%			
Redemption Amount of ₹ 1,000	1,000	1,000	1,200	1,000	1,750	1,000	2000			
Coupon Type	Fixed									
Put and Call Option	Not applicable									
Deemed Date of Allotment	The date on which the Board or a duly authorised committee approves the Allotment of NCDs. All benefit relating to the NCDs including interest on the NCDs shall be available to the investors from the Deemed Dat of Allotment. The actual Allotment of NCDs may take place on a date other than the Deemed Date of Allotment									

For details of category wise eligibility and allotment in the Issue please see "Issue Procedure - Who can apply", "Issue Procedure - Method of application" and "Issue Procedure - Basis of allotment", on pages 162,164 and 185 of the Prospectus, respectively

Our Company would allot Option I NCDs to all valid applications, wherein the applicants have not indicated their choice of the relevant options of the NCDs. Please note that the company would be using the Electronic Bidding Software of BSE Limited for the Issue.

Muthoottu

ISSUE OPENS ON WEDNESDAY, JANUARY 13, 2021 ISSUE CLOSES ON TUESDAY, FEBRUARY 9, 2021*

*The Issue shall remain open for subscription on Working Days from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. (Indian Standard Time), during the period indicated above, except that the Issue may close on such earlier date or extended date (subject to a period of maximum 30 days from the date of the Prospectus) as may be decided by the Board of Directors of our Company ("Board") or the Debenture Committee. In the event of such an early closure of or extension subscription list of the Issue, our Company shall ensure that notice of such early closure or extension is given to the prospective investors through an advertisement in a reputed national daily newspaper with wide circulation on or before such earlier date or extended date of closure. Application Forms for the Issue will be accepted only from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as may be permitted by BSE, on Working Days during the Issue Period. On the Issue Closing Date. Application Forms will be accepted only between 10:00 a.m. to 3:00 p.m. and uploaded until 5:00 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as may be permitted by BSE. For further details, please refer to "General Information – Issue Programme" on page 42 of the Prospectus.

Further pursuant to the SEBI circular (SEBI/HO/DDHS/CIR/P/2020/233) dated November 23, 2020 ("Debt UPI Circular"), SEBI has introduced the UPI Mechanism as a payment mechanism for the Issue. The UPI Mechanism is applicable for public issue of debt securities which open for subscription on or after January 1, 2021. Accordingly, payment through the UPI Mechanism shall be available for the Issue. For further details, please see "Issue Procedure" on page 161 of

Information required under Section 30 of Companies Act, 2013: Contents of the Memorandum of Association of the Company as regards its objects: For information on the main objects of our Company, see "History and

Certain other Corporate Matters" on page 109 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of the Company is a document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section titled "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 249 of the Prospectus. Liability of Members: Limited

Amount of share capital of the company as at the date of the Prospectus: The Authorised Share Capital of the Company is ₹ 3,25,00,00,000 divided into 3.25.00.000 Equity Shares of ₹ 100 each. The Issued, Subscribed and Paid-up Share Capital is ₹ 2.49.52.53.900 divided into 2.49.52.539 Equity Shares Names of the signatories at the time of signing of the Memorandum of Association of the Company and the number of shares subscribed for by them at the

time of signing the Memorandum of Association: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for of face value of

₹ 100 each by each of them at the time of signing of Memorandum of Association: M. Mathew - 1000 Equity Shares, Roy Mathew - 1000 Equity Shares, Sosamma Mathew - 1000 Equity Shares and Nizzy Mathew - 1000 Equity Shares. PROMOTERS OF THE COMPANY: Mrs. Nizzy Mathew and Mr. Mathew Muthoottu. For further details, refer to the chapter "Our Promoters" on page 118 of the Prospectus. LISTING: The NCDs offered through the Prospectus are proposed to be listed on the BSE Limited ("BSE"). Our Company has obtained an 'in-principle' approval

for the Issue from BSE vide its letter dated January 5, 2021. BSE shall be the Designated Stock Exchange for the Issue.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the Prospectus has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause of the BSE Limited. DISCLAIMER CLAUSE OF RBI: The Company is having a valid certificate of registration dated April 13, 2002 and a fresh certificate of registration dated

RBI does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of the Company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinions expressed by the Company and for repayment of deposits/discharge of liability by the Company. CREDIT RATING: The comany has received rating of 'IND BBB': Outlook Stable' by India Ratings vide its letter dated December 24, 2020, for the NCDs for an amount up to ₹ 50,000 lakhs including NCDs proposed to be issued pursuant to the Issue. The rating of the NCDs by India Ratings and Research Private Limited indicate that instruments with this rating are considered to have moderate degree of safety regarding timely servicing of financial obligations and carry moderate credit risk. The ratings provided by India Ratings and Research Private Limited may be suspended, withdrawn or revised at any time by the assigning rating agency

and should be evaluated independently of any other rating. These ratings are not a recommendation to buy, sell or hold securities and Investors should take their

January 1, 2014 bearing registration no. N-16.00175 issued by the Reserve Bank of India under section 45 IA of the Reserve Bank of India act, 1934. However,

own decisions. Please refer to Annexure II on page 254 for the rationale for the above rating. AVAILABILITY OF APPLICATION FORM: Application Forms can be obtained from: Muthoottu Mini Financiers Limited - Tel.: +91 484 291 2100 Fax: NA; Lead Manager / Syndicate member: Vivro Financial Services Private Limited - Tel.: +91 22 6666 8040/41/42, Fax: +91 22 6666 8047 and offices of Sub-Syndicate Members, Trading Members and Designated Branches of the SCSBs. Application Forms may be downloaded from the websites, of the Company i.e. www.muthoottumini.com, of the Lead Manager at www.vivro.net and of the BSE at www.bseindia.com. Additionally, UPI Investor making an application in the Issue can also make a bid through online (app / web) interface / platform of the BSE Limited i.e. 'BSE Direct'. Further, BSE Direct platform can be accessed at

https://www.bsedirect.com or can be accessed through the mobile app. AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors beginning on page 15 therein, before applying in the Issue. Physical copy of the Prospectus may be obtained from the Registered Office of the Company and the Lead Manager / Syndicate Member. Soft copy of the Prospectus will be available on the website of the Issuer at www.muthoottumini.com, of the Lead Manager at www.vivro.net, of BSE at www.bseindia.com and of SEBI at www.sebi.gov.in.

PUBLIC ISSUE BANK, SPONSOR BANK & REFUND BANK: HDFC Bank Limited. Note: All Capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus.

VIVRO VIVRO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

Facsimile: +91 22 6666 8047

607/608 Marathon Icon, Opp. Peninsula Corporate Park, Off. Ganpatrao Kadam Marg, Veer Santaji Lane, Lower Parel, Mumbai - 400 013, Maharashtra, India Tel.: +91 22 6666 8040 / 41 / 42

LEAD MANAGER TO THE ISSUE

Email: mmfl@vivro.net Investor Grievance Email: investors@vivro.net Website: www.vivro.net Contact Person/Compliance Officer: Jayesh Vithlani

SEBI Registration No.: INM000010122

VISTRA ITCL VISTRA ITCL (INDIA) LIMITED The IL&FS Financial Center, Plot C - 22, G Block,

DEBENTURE TRUSTEE

Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051, Maharashtra, India Tel: +91 22 2659 3333 Facsimile: +91 22 2653 3297 Email: itclcomplianceofficer@vistra.com Website: www.vistraitcl.com

LINKIntime LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED

Maharashtra, India Tel.: +91 22 4918 6200 Facsimile: +91 22 4918 6195 E-mail: ncd4.mmfl2020@linkintime.co.in Investor Grievance E-mail: ncd4.mmfl2020@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Shanti Gopalkrishnan Contact Person: Jatin Chonani - Compliance Officer

SEBI Registration No.: INR000004058

Investors may contact the Registrar to the Issue or the

Compliance Officer in case of any pre-issue or post

C-101, 247 Park, 1st Floor, L.B.S. Marg,

Vikhroli (West) Mumbai - 400 083,

REGISTRAR TO THE ISSUE

COMPLIANCE OFFICER AND CONTACT PERSON

SEBI Registration Number: IND000000578

Investor Grievance Email:

itclcomplianceofficer@vistra.com



Smitha K. S. MUTHOOTTU MINI FINANCIERS LIMITED

Muthoottu Royal Towers, Kaloor, Cochin - 682 017, Kerala, India E-mail: cs@minimuthoottu.com Tel.: +91 484 291 2178 | Fax.: NA

Issue related issues such as non-receipt of Allotment Advice, demat credit of allotted NCDs, refund orders. "Vistra ITCL (India) Limited, by its letter dated December 23, 2020, has given its consent for its appointment as Debenture Trustee to the Issue and for its name to

be included in the Prospectus and in all the subsequent periodical communications sent to the holders of the Debenture issued pursuant to the Issue. For further details, please refer to "General Information - Debenture Trustee" on page 38 of the Prospectus. A copy of the Prospectus and written consents of our Directors, our Company Secretary and Compliance Officer, our Chief Financial Officer, our Auditor, the Lead Manager, the Registrar to the Issue, Public Issue Bank, Sponsor Bank, Refund Bank, Credit Rating Agency, the legal advisor, the Bankers to our Company, the

beginning on page 249 of the Prospectus. Disclaimer: Muthoottu Mini Financiers Limited is subject to market conditions and other considerations, proposing a public issue of Secured and Unsecured Redeemable Non-Convertible Debentures and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Kerala and Lakshadweep, BSE Limited and SEBI (for record purposes). The Prospectus is available on the website of the Company at www.muthoottumini.com, on the website of the stock exchange at www.bseindia. com and the website of the Lead Manager at www.vivro.net. All investors intending to participate in the public issue of NCDs by Muthoottu Mini Financiers Limited

should invest only on the basis of information contained in the Prospectus dated January 11, 2021. Please see section entitled "Risk Factors" beginning on page

Debenture Trustee, and the Syndicate Member to act in their respective capacities has been filed with the RoC, in terms of Section 26 of the Companies Act, 2013

along with the requisite endorsed/certified copies of all requisite documents. For further details, please see "Material Contracts and Documents for Inspection"

FOR MUTHOOTTU MINI FINANCIERS LIMITED

Mathew Muthoottu **Managing Director** (DIN: 01786534)

Date: January 11, 2021

Place: Kochi

15 of the Prospectus for risk in this regard.

11th January 2021 Company Secretary & Compliance Officer

For Mafatlal Industries Limited,

OLYMPIC MANAGEMENT & FINANCIAL SERVICES LTD

Email: info@corporatementors.in **Website:** www.corporatementors.in Tel No. 022-22093908

per the above cut-off date shall deemed to be cancelled with effect from the cut of date 29th January, 2021 and will be bad delivery for all purposes. The shareholders need to surrender their old share certificate(s) in exchange of new share certificate(s). The shareholders holding shares in physical form are also requested to update their addresses PAN and Bank account details along with the exchange of old share certificates to serve you better.

You may be aware that the Shares can be traded in the Share Markets, if they are held in

Tel. No.: (022) 49186270, E-mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in or the Company directly.

Dated: 09.01.2021

Members, who have not received the postal ballot notice may apply to the

Kamala Mills compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Tel. no. +91 (22) 2499 4545

> By Order of Board of Directors For Force Motors Limited

New Delhi



अधिकतम-16.8 डि.से.

न्युनतम- 07.8 डि.से.

सूर्योदय- 7:15 सूर्यास्त- 17:44

जनसत्ता, नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2021 3

दिल्ली में सर्द हवाओं से धूप हुई फीकी, और गिरेगा पारा

नई दिल्ली

राजधानी

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 11 जनवरी।

पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं की वजह से राजधानी दिल्ली में ठंड का असर बढ गया है। सोमवार को अच्छी धूप के बावजूद सर्द हवा चलती रही। इससे धूप का मजा भी बेकार हो गया। इससे न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि दिल्ली का न्यूनतम तापमान सोमवार को सात डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और बर्फ से ढके पश्चिमी हिमालय से



तक पारा गिरकर पांच से छह डिग्री

सफदरजंग वेधशाला में न्युनतम तापमान

रविवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस था जो सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस कम था। इससे पहले तीन जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में दिल्ली के आसमान पर बादल छाये रहने की वजह से कुछ दिन तक न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया था। रविवार को दिल्ली का न्युनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। शनिवार को यह 10.8 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 9.6 डिग्री सेल्सियस और बृहस्पतिवार को 14.4 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर रहा था जो पिछले चार साल में जनवरी का सबसे

मुख्यमंत्री केजरीवाल का मुफ्त कोरोना टीका देने का वादा झूठा : कांग्रेस

जनसत्ता सवाददाता नई दिल्ली, 11 जनवरी।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्लीवासियों को निःशुल्क कोरोना टीका देने के वादे से पीछे हट रहे हैं। यह एक तरह से दिल्लीवासियों को धोका देने जैसा है। उन्होंने कहा कि मख्यमंत्री कह रहे है कि कोरोना टीका देने का कार्य केंद्र सरकार का है। इससे तो यही लगता है कि मुख्यमंत्री ने एक और झुठा वादा दिल्लीवासियों से कर दिया है।

अनिल कुमार ने कहा कि

कोरोना टीके के वायदे को मुख्यमंत्री चुनावी वायदों जैसा समझा है, जिन्हें कभी पूरा नहीं किया जाता।

दिल्ली सरकार दिल्लीवासियों को टीका देने के खोखले वादे की प्रतिबद्धता से पीछे हट गई है, जिससे कोविड संक्रमण के कारण आर्थिक नुकसान झेल रहे दिल्लीवासियों पर टीका वहन करने में अधिक परेशानी झेलनी पडेगी। संक्रमण का शिकार होने का खतरे के बीच रहे रहे।

सकल सास्त्रा नई दिल्ला प्रथम तलू, राजेन्द्र भवन्, राजेन्द्र प्लेस,

नई दिल्ली—110 125, फोन नं. 25854327, 25853243, ईमेलः bo4168@pnb.co.in (शुद्धिपत्र) यह बिक्री सूचना इस समाचार पत्र में दिनांक 10-01-2021 को प्रकाशित हुआ था जिसमें सिरियल नं 4 खाता का नाम मैसर्स नाईटराइर्डस अपेरल्स प्रा. लि. मे भौतिक कब्जा प्रकाशित हुआ है जो गलत है कृपया इसके जगह पर सांकेतिक कब्जा पढा जाए। अन्य सभी नियम व शर्ते सामान्य

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक सेक्योंड क्रेडिटर

स्थान : नई दिल्ली

EXIDE Life -Insurance

Our Office is Shifting

Notice is hereby given pursuant to IRDAI Cricular No. 041 IRDA/BOO/ Dec - 06 to the policyholders that the sales office of Exide Life Insurance Company Limited situated at :

1" & 2" Floor, SCO 166-167, Sector 9C, Madhya Marg, Above Grewal Eye Institution, Chandigarh 160 001

Will be shifted to:

तिथि : 11.01.2021

2rd Floor, Berkeley Square, Plot No. 24, Industrial Area Phase-1, Ginger Hotel Road, Chandigarh -

Landmark - Near PMG Renault Showroom

w.e.f. 10th April, 2021 For any assistance Call:

Toll Free: 1800 419 8228 Email:

care@exidelife.in Exide Life Insurance Company Limited IRDAI Registration Number: 114, CIN: U66010KA2000PLC028273, Registered Office: 3rd Floor, JP Techno Park, No.3/1,

Millers Road, Bengaluru - 560 001; Toll Free:

बैंक ऑफ इंडिया, अशोक विहार शाखा सी-2/21, फेज-11, अशोक विहार, दिल्ली-110052

परिशिष्ट – IV (नियम – 8(1)) सांकेतिक कब्जा सूचना (प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के तहत प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 8 के साथ पठित)

जबकि अघोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हित वर्तन अधिनियम 2002 के तहत बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार **श्री कृष्ण गोपाल बजाज और श्रीमती रामा बजाज** को मांग चना दिनांकित 02.11.2020 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु (6,17,784.69 (रुपये सोलह लाख सत्रह हजार सात सौ चौरासी और पैसे उनहत्तर मात्र) दिनांक 28.07.2020 तक और भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भूगतान करने को कहा

कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 07.01.2021 को लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, के प्रभार वास्ते रु. 16,17,784.69 और भविष्य का ब्याज, इत्यादि सहित के अधीन

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतू उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि डीडीए फ्लैट नं. 44-सी. कैटेगिरी- जनता, क्षेत्रफल 22.00 वर्ग मी., प्रथम तल, अशोक विहार के रिहायशी स्कीम के अंतर्गत, फेज-111 दिल्ली – 110052 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री कृष्ण गोपाल बजाज के नाम पर है। चौहदी उत्तर पूरब में — गली, दक्षिण पश्चिम में — फ्लैट नं. 45सी, दक्षिण पूरब में — फ्लैट नं. 43सी, उत्तर पश्चिम में - फ्लैट नं. 44डी

दिनांक : 07-01-2021, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

पंजीकृत कार्यालय : इण्डियन रेयॉन कम्पाउण्ड, वेरावल, गुजरात-362 266

परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें] कब्जा सचना (अचल सम्पत्ति हेत)

अधोहस्ताक्षरी, प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, डी-17, सेक्टर-3, नोएडा का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार श्री विनय चन्द्र झा एवं श्रीमती निभा झा (कर्जदार/सह कर्जदार/जमानती) को कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि रु. 11,42,963/- (रुपये ग्यारह लाख बयालीस हजार नौ सौ तिरेसठ मात्र) का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 23.07.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी। कर्जदार द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण, एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथपठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 7 जनवरी, 2021 को कब्जा कर

विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार रु. 11,42,963/- (रुपये ग्यारह लाख बयालीस हजार नौ सौ तिरेसठ मात्र) तथा इस पर ब्याज के लिए आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, डी-17, सेक्टर-3, नोएडा, उ.प्र. के प्रभार का विषय होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति फ्लैट सं. 4, सम्पत्ति सं. सी-9/6, बाईं ओर पीछे की ओर, भूतल, छत के अधिकार रहित, डीएलएफ अंकुर विहार, सादुल्लाबाद, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 से निर्मित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग। माप : 37.16 वर्ग मीटर। सीमाएं : उत्तर : प्लॉट सं. सी-9/5, पूर्व : अन्य भूमि, दक्षिण : प्लॉट सं. सी-9/7, पश्चिम : 9 मीटर चौडी सडक। आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

दिनांक : 07.01.2021

अधिकृत प्राधिकारी

अधिनियम के अध्याय XXI के भाग 1 के तहत पंजीकरण के संबंध में सूचना का विज्ञापन (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और

कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4 (1) के अनुसरण में}

प्ररूप संख्या यूआरसी-2

सुचना दी जाती है की कंपनी अधिनियम, 2013 की थारा 366 की उप थारा (2) के अनुसरण में रिनस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली को एक आवेदन पंद्रह दिनों के बाद, लेकिन तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पहले प्रस्तावित है, की "सुरंगे मैडिक्लिनिक " एक साझेदारी को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग 1 के अधीन शेयरों डारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकत

. कंपनी के मूल उद्देशय इस प्रकार हैं: अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, क्लीनिकल केंद्रों, फार्मेसी,

डेकेयर केंद्रों और अन्य चिकित्सा सेवा इकाइयों को बनाए रखने और संचालित करने के लिए। II. सभी चिकित्सा विज्ञान और व्यापार प्रबंधन के अनसंधान और विकास में संलग्न करके चिकित्सा और

क्लीनिकल अनुसंघान करना । III. चिकित्सा विज्ञान और व्यापार प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने में लगे शिक्षण संस्थानों की स्थापना और

प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप संगम और अनुच्छेद ज्ञापन की प्रतिलिपि का निरीक्षण ए-131, एआईएमओ सीजीएचएस, क्लासिक अपार्टमैंट, प्लॉट नंबर-11, सैक्टर-22, द्वारका, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110077 स्थित कार्यालय में किया जा सकता है। सचना दी जाती है की यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन

पर आपत्ति है तो वह लिखित में अपनी आपत्ति इस सचना के प्रकाशन के इक्कीस दिन के भीतर रजिस्टार. केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (IICA), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050, पर मेज दें तथा इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भी

आवेदको के नाम 1. डा. पंकज निशिकांत सुरंगे 2. डा. हर्षिता सुरंगे

दिनांक: 11 जनवरी 2021 | स्थान: नई दिल्ली

1800 419 8228; Visit; exidelife.in अंचल कार्यालय : दिल्ली दक्षिण, 17, पार्लियामेंट स्टीट, नई दिल्ली-110001

Indian Bank

ALLAHABAD

इंडियन बैंक

परिशिष्ट-IV-अ [नियम 8(6) के प्रावधान देखें]

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सुचित किया जाता है कि प्रतिभृत क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति/यों, जिसका कब्जा इण्डियन बैंक (ई-इलाहाबाद

क्र. सं.	कर्जदार(रों) का	जमानती(्यों)⁄बंधककर्ता	अचल सम्पत्ति यों का विवरण	भौतिक/	08.01.2021 तक	आरक्षित	(viii)	जमा धरोहर राशि	 अधिकृत प्राधिका 	
я.	नाम शाखा का नाम	के नाम		रचनात्मक कब्जा	प्रतिभूत ऋण की राशि	मूल्य	(ix)	न्यूनतम वृद्धि राशि	(xi) सम्पर्क नम्बर (xii) ई-मेल आईडी	
i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii))			
1.	कीर्ति कपूर एवं मोहित कपूर शाखा : आनन्द लोक शाखा (ईएबी) नई दिल्ली	बंधककर्ताः कीर्ति कपूर पत्नी श्री मोहित कपूर जमानतीः मोहित कपूर पुत्र श्री प्रेम प्रकाश कपूर	इक्विटेबली बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग, फ्लैट सं. सी– 67डी, तीसरी मंजिल छत के अधिकार सहित, खसरा नं. 173 एवं 174, ग्राम जियाउद्दीनपुर, ज्योति कॉलोनी के पूर्व में, शाहदरा, दिल्ली–110032 पर स्थित। कुल क्षेत्रफल 90.30 वर्ग मीटर, स्वामित्व श्रीमती कीर्ति कपूर पत्नी श्री मोहित कपूर। सीमा: उत्तर: अन्य की सम्पत्ति, पूर्व: अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण: अन्य की सम्पत्ति, पूर्व: 20 फीट चौड़ी सड़क	भौतिक कब्जा			00	হ. 4.80 লাख হ. 0.50 লাख	श्री पलानी कुमार ज 011-41099477 anandlokcolony(indianbank.co.ii	
2.	मैसर्स डी.टी.एस. डाइ कास्टिंग (श्री प्रीत पाल) शाखा : फरीदाबाद (आईबी)	बंधककर्ताः श्री प्रीत पाल सिंह जमानतीः श्री मुख्तियार सिंह	मकान सम्पत्ति के इक्विटेबल बंधक का सम्पूर्ण भाग, मकान नं. 1025, प्लॉट सं. 196-ए, खेवट सं. 693/679, खतौनी नं. 742, मुस्तिल नं. 62, किला सं. 27/8, निकट शिव पार्क, जवाहर कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001 पर स्थित, माप 192 वर्ग गज, स्वामित्व श्री प्रीत पाल सिंह (फर्म के प्रोपराइटर) पुत्र मुख्यितायर सिंह। सीमा: पूर्व: श्री राजेन्द्र सिंह का मकान, पश्चिम: जे.पी. पिपलानी का मकान, दक्षिण: श्री बलजीत सिंह का मकान, उत्तर: गली।	सांकेतिक कब्जा	रु. 34.80 लाख + बैंक के बकायों की वसूली तक ब्याज एवं अन्य व्यय	रु. 40.00	लाख	হ. 4.00 লাख হ. 0.50 লাख	श्री अनुज सूद 0129-2412739 faridabad@ indianbank.co.ii	
3.		बंधककर्ताः श्री राम प्रवेश	बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : आवासीय मकान श्री राम प्रवेश पासवान के नाम पर, आवासीय प्लॉट सं. 168, माप	सांकेतिक कब्जा	্চ. 25.62 লাख as on 18/06/2019 +	रु. 20.00	लाख	रु. 2.00 लाख	श्री अनुज सूद 0129-2275836	
पासवान एवं श्रीमती जमानती: 110.: भारती भाग शाखा: सेक्टर 37, आवा फरीदाबाद एनएन पलव 169,			110.80 वर्ग गज, माप 21'0"x 47'6" रेक्ट सं. 89 का भाग निर्मित करने वाली भूमि पर, किला सं. 18(8-0) आवासीय परियोजना ''मंशा रेजीडेंसी'', ग्राम औरंगाबाद, एनएच-2, निकट डीपीएस स्कूल, तहसील होडल, जिला पलवल, हरियाणा पर स्थित। सीमा : उत्तर : प्लॉट सं. 169, दक्षिण : प्लॉट सं. 167, पूर्व : प्लॉट सं. 173, पश्चिम : सड़क।		बैंक के बकायों की वसूली तक ब्याज एवं अन्य व्यय			रु.0.10 লাख	sector37 faridabad@ indianbank.co.ii	
4.	श्री रंजीत कुमार रॉय	बंधककर्ता : श्री रंजीत कमार रॉय जमानती	सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : फ्रीहोल्ड आवासीय सम्पत्ति का इक्विटेबल बंधक, रंजीत कुमार रॉय के नाम पर, माप 550	भौतिक	रु. 32.84 लाख + बैंक के बकायों की	रु. 20.00	लाख	रु.2.00 लाख	श्री अमरेन्द्र प्रताप रि	
	शाखा : साउथ एक्सटेंशन (ईएबी)	: 1. नरेश कुमार पुत्र बल्ली राम	वर्ग फीट, प्लॉट सं. 67, टाइम्स अपार्टमेंट्स, ब्लॉक बी, फ्लैट सं. बी2, द्वितीय तल, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 2, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र. सीमा: पूर्व: 40 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम: सर्विस लेन, उत्तर: प्लॉट सं. बी-68, दक्षिण: प्लॉट सं.: बी-66	कब्जा	बक्त क बकाया का वसूली तक ब्याज एवं अन्य व्यय			 .0.10 লাख	o11-24625093 southextensior delhi@ indianbank.co.	
5.	मैसर्स नॉर्थ स्टार	बंधककर्ता : श्री मनोज कुमार शर्मा	सम्पत्ति सं. 74 एवं 75 का सम्पूर्ण भाग, मोहल्ला मधैया सुखलाल सिंह, पिलखुआ, परगना डासना, हापुड़, उत्तर		रु. 95.53 लाख + बैंक के बकायों की	रु. 15.00	लाख	रु. 1.50 लाख	श्री अमरेन्द्र प्रताप रि 011-24625093	
	(प्रोप : श्री मनोज कुमार शर्मा) शाखा : साउथ एक्स (ईएबी)	जमानती/सह आवेदक नितिन		कब्जा	बक्त क बकाया का वसूली तक ब्याज एवं अन्य व्यय			रु. 0.10 लाख	southextensior delhi@ indianbank.co.	
6.	मैसर्स आर.एस. डोर (प्रोप. : राजबीर	बंधककर्ता : श्री राजबीर सिंह	बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : सम्पत्ति सं. 1125, माप 180 वर्ग गज, खेवट/खाता सं. 1636/237 रेक्ट सं. 61,	सांकेतिक कब्जा	रु. 137.91 लाख + बैंक के बकायों की	रु. 65.12	लाख	रु. 6.51 लाख	श्री आलोक बागर्र 011-29997782	
	सिंह) शाखा :		किला सं. 2(4-5), 3/1/1 (1-5), 8/2/21(1- 13), 9/1(1-6) 9/2 (5-10), 10(8-0), 26(1-4) निर्मित	المرام	वसूली तक ब्याज एवं			रु. 0.50 लाख	greaterkailash(

30 जनवरी, 2021 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित।

न्यूनतम संविदा वृद्धि राशि ऊपर उल्लिखित है।

संविदाकारों को ऑनलाइन संविदा में भाग लेने के लिए हमारी ई-नीलामी सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट (www.mstcecommerce.com) देखने का परामर्श दिया जाता है। तकनीकी सहायता के लिए कृपया एमएसटीसी हेल्पडेस्क नं. 033-22901004 एवं सेवा प्रदाता के हेल्पडेस्क में उपलब्ध अन्य हेल्प लाइन नम्बरों पर सम्पर्क करें। एमएसटीसी लिमिटेड के साथ पंजीकरण की स्थित के लिए कृपया ibapiop@mstcecommerce.com

सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत 15 दिवसीय विधिक बिक्री सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं

बैंक), प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया था, की बिक्री बकायों की वसूली हेतु 28.12.2020 को ''जो है यही है'', ''जहाँ है जैसे है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जायेगी। ई-नीलामी माध्यम से बिक्री की जाने वाली सम्पत्तियों का विशिष्ट विवरण निम्नलिखित है

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट,		शाजा यम गान			979911	(1141		. મુંગતા ઝુાજી તારા	ः ई−मेल आईडी
अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 (''आईईपीएफ नियमावली'') के साथ पठित कम्पनी	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)		
अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार दी जा रही है।	1.	कीर्ति कपूर एवं	बंधककर्ताः कीर्ति कपुर	इक्विटेबली बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग, फ्लैट सं. सी-	भौतिक	হ. 49.73 লাख +	₹. 48.00	रु. 4.80 लाख	श्री पलानी कुमार
कैस्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (''कम्पनी'') के इक्विटी शेयरधारकों को एतद् द्वारा सूचित किया		मोहित कपूर	पत्नी श्री मोहित कपूर	67डी, तीसरी मंजिल छत के अधिकार सहित, खसरा नं.	कब्जा	बैंक के बकायों की	लाख		011-41099477
जाता है कि आईईपीएफ के नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 124(6) के प्रावधानों के		शाखाः	जमानती : मोहित कपूर पुत्र	173 एवं 174, ग्राम जियाउद्दीनपुर, ज्योति कॉलोनी के पूर्व		वसूली तक ब्याज एवं		रु. 0.50 लाख	anandlokcolony
अनुसार ऐसे सभी शेयरों जिसके लिए लगातार सात वर्षों या अधिक से लाभांश का भुगतान नहीं किया		आनन्द लोक शाखा	श्री प्रेम प्रकाश कपूर	में, शाहदरा, दिल्ली-110032 पर स्थित। कुल क्षेत्रफल 90.30 वर्ग मीटर, स्वामित्व श्रीमती कीर्ति कपूर पत्नी श्री		अन्य व्यय			indianbank.co.
गया है अथवा दावा नहीं किया गया है, को कम्पनी द्वारा आईईपीएफ नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट तरीके		(ईएबी) नई दिल्ली		मोहित कपूर।					
से निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (''आईईपीएफ प्राधिकरण'') में अंतरित किया				सीमा : उत्तर : अन्य की सम्पत्ति, पूर्व : अन्य की सम्पत्ति,					
जाएगा।				दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति, पूर्व : 20 फीट चौड़ी सड़क					
तद्नुसार, ऐसे सभी संबंधित शेयरधारकों जिन्होंने वित्त वर्ष 2012-2013 से 2013-2014 के लिए	2.	मैसर्स डी.टी.एस.	बंधककर्ताः श्री प्रीत पाल	मकान सम्पत्ति के इक्विटेबल बंधक का सम्पूर्ण भाग, मकान	सांकेतिक	रु. 34.80 लाख +	रु. 40.00 लाख	रु. 4.00 लाख	श्री अनुज सूद
अपना लाभांश तथा कम्पनी द्वारा घोषित सभी परवर्ती लाभांश का दावा/नगदीकरण नहीं किये हैं तथा		डाइ कास्टिंग (श्री	सिंह	नं. 1025, प्लॉट सं. 196-ए, खेवट सं. 693/679, खतौनी	कब्जा	बैंक के बकायों की		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0129-2412739
जिनके शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में अंतरित किया जाना है, को कम्पनी में		प्रीत पाल)	जमानती : श्री मुख्तियार	नं. 742, मुस्तिल नं. 62, किला सं. 27/8, निकट शिव		वसूली तक ब्याज एवं		रु. 0.50 लाख	faridabad@
उपलब्ध उनके नवीनतम पते पर वैयक्तिक सूचना भेजी जा रही है। कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों (ऐसे		शाखाः	सिंह	पार्क, जवाहर कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा–121001 पर		अन्य व्यय			indianbank.co.
शेयरधारकों के नाम, उनकी फोलियो सं. अथवा डीपी आईडी-क्लाइन्ट आईडी सहित) तथा		फरीदाबाद (आईबी)		स्थित, माप 192 वर्ग गज, स्वामित्व श्री प्रीत पाल सिंह					
आईईपीएफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में अंतरण के लिए नियत उनकी शेयरों के विवरणों को अपनी				(फर्म के प्रोपराइटर) पुत्र मुख्यितायर सिंह। सीमा : पूर्व : श्री राजेन्द्र सिंह का मकान, पश्चिम : जे.पी.					
वेबसाईट www.amtek.com/ail/php पर भी अपलोड कर दिया है। संबंधित शेयरधारकों से				पिपलानी का मकान, दक्षिण : श्री बलजीत सिंह का मकान,					
आग्रह है कि आईईपीएफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में अंतरित की जाने वाली शेयरों के विवरणों				उत्तर : गली।					
की जांच के लिए उपरोक्त वेबसाईट देखें।									
शेयरधारक कृपया ध्यान रखें कि ऐसी शेयरों पर यदि कोई हो, उपचियत सभी लाभों सहित	3.		बंधककर्ताः श्री राम प्रवेश	बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : आवासीय मकान श्री राम	सांकेतिक	रु. 25.62 लाख as	रु. 20.00 लाख	रु. 2.00 लाख	श्री अनुज सूद
आईईपीएफ प्राधिकरण/सस्पेंस खाता में अंतरित की गई लाभांश तथा तत्स्थानीय शेयरों दोनों को वैध		2. श्री राम प्रवेश	पासवान एवं श्रीमती भारती	प्रवेश पासवान के नाम पर, आवासीय प्लॉट सं. 168, माप	कब्जा	on 18/06/2019 +			0129-2275836 sector37
दावे की तिथि तक इस संदर्भ में नियमावली में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद आईईपीएफ		पासवान एवं श्रीमती भारती	जमानती :	110.80 वर्ग गज, माप 21'0"x 47'6" रेक्ट सं. 89 का भाग निर्मित करने वाली भूमि पर, किला सं. 18(8-0)		बैंक के बकायों की वसूली तक ब्याज एवं		रु.0.10 लाख	faridabad@
प्राधिकरण से वापस प्राप्त करने का दावा किया जा सकता है।		शाखा : सेक्टर 37,		आवासीय परियोजना ''मंशा रेजीडेंसी'', ग्राम औरंगाबाद,		अन्य व्यय			indianbank.co.
पुनः शेयरधारक यह ध्यान रखें कि उसकी वेबसाईट पर कम्पनी द्वारा अपलोड की गई विवरणों		फरीदाबाद		एनएच-2, निकट डीपीएस स्कूल, तहसील होडल, जिला		31 4 544			
को आईईपीएफ प्राधिकरण/सस्पेंस खाता में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा डुप्लिकेट				पलवल, हरियाणा पर स्थित। सीमा : उत्तर : प्लॉट सं.					
शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संदर्भ में पर्याप्त सूचना माना जायेगा।				169, दक्षिण : प्लॉट सं. 167, पूर्व : प्लॉट सं. 173, पश्चिम					
यदि 21 अप्रैल, 2021 तक कम्पनी को संबंधित शेयरधारकों से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो				ः सड़क।					
कम्पनी समय-समय पर लागू उपरोक्त नियमावली के अनुसार तथा उसमें दी गई प्रक्रिया के अनुसार			बंधककर्ता :	सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : फ्रीहोल्ड आवासीय सम्पत्ति का	.30-	T 22 24 TT	रु. 20.00 लाख		
आगे कोई भी सूचना दिये बिना इन शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित कर देगी।	4.	श्री रंजीत कुमार रॉय शाखा : साउथ		इिक्वटेबल बंधक, रंजीत कुमार रॉय के नाम पर, माप 550	भौतिक कब्जा	रु. 32.84 लाख + बैंक के बकायों की	(1 20100 (11 01	रु.2.00 लाख	श्री अमरेन्द्र प्रताप वि
		एक्सटेंशन (ईएबी)	: 1. नरेश कुमार पुत्र बल्ली	वर्ग फीट, प्लॉट सं. 67, टाइम्स अपार्टमेंट्स, ब्लॉक बी,	कळ्या	वसूली तक ब्याज एवं		रु.0.10 लाख	011-24625093 southextension
यदि आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित की जाने वाली शेयर भौतिक पद्धति में धारित हो तो कम्पनी		५५५।८५। (३५५।)	राम	फ्लैट सं. बी2, द्वितीय तल, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 2,		अन्य व्यय		v.o. 10 (11G	delhi@
आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरण के लिये डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी तथा ऐसी डुप्लिकेट			2. सुश्री पूनम रॉय पत्नी श्री	साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र.					indianbank.co.
शेयर प्रमाण पत्र जारी करेगी तथा ऐसी डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने पर मूल शेयर प्रमाणपत्र			रंजीत कुमार रॉय	सीमा : पूर्व : 40 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम : सर्विस लेन, उत्तर : प्लॉट सं. बी–68, दक्षिण : प्लॉट सं. : बी–66					
निरस्त तथा अविचारणीय माने जाएंगे। यदि शेयर डीमैट पद्धति में धारित है तो कॉर्पोरेट कार्रवाई द्वारा				उत्तर : प्लाट स. बा-68, दाक्षण : प्लाट स. : बा-66					
कम्पनी डिपाजिटरी, जहां शेयर धारकों के खाते हैं, को आईईपीएफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में									
शेयरों के अंतरण के लिये सूचना देगी।									
यदि संबंधित शेयरधारक, यदि कोई हो, ऐसी शेयरों पर उपचियत सभी लाभों सहित आईईपीएफ	5	मैसर्स नॉर्थ स्टार	बंधककर्ताः श्री मनोज कुमार	सम्पत्ति सं. 74 एवं 75 का सम्पूर्ण भाग, मोहल्ला मधैया	सांकेतिक	रु. 95.53 लाख +	रु. 15.00 लाख	रु. 1.50 लाख	श्री अमरेन्द्र प्रताप रि
प्राधिकरण की डीमैट खाता में अंतरित दावा-रहित लाभांश तथा शेयरों का दावा करने के इच्छुक हों	J.	(प्रोप : श्री मनोज	शर्मा	सुखलाल सिंह, पिलखुआ, परगना डासना, हापुड़, उत्तर		बैंक के बकायों की		V. 1.50 (IIG	011-24625093
तो आईईपीएफ नियमावली में निर्दिष्ट प्रक्रिया जो आईईपीएफ प्राधिकरण की वेबसाईट		कुमार शर्मा)	जमानती/सह आवेदक नितिन			वसूली तक ब्याज एवं		रु. 0.10 लाख	southextension
www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है, के अनुसार ऑनलाइन आईईपीएफ-5 प्रपत्र में आईईपीएफ		शाखाः साउथ		त सीमा : पूर्व : अन्य प्लॉट, पश्चिम : अन्य प्लॉट, उत्तर :		अन्य व्यय			delhi@ indianbank.co.
प्राधिकरण के पास अलग से आवेदन किया जायेगा तथा प्रपत्र आईईपीएफ-5 में वर्णित वांछित		एक्स (ईएबी)	मैसर्स शशि एसोसिएट्स प्रोप. शशि बाला	अप्रोच रोड, दक्षिण : अन्य प्लॉट					muranoank.co.
दस्तावेजों के साथ उसकी विधिवत हस्ताक्षरित भौतिक प्रति (कम्पनी में दर्ज हस्ताक्षर के नमूने के			ત્રાપ. સારા બાલા						
अनुसार) भेजा जाएगा।									
शेयरधारक पुनः ध्यान रखें कि उसकी वेबसाईट पर कम्पनी द्वारा अपलोड की गई विवरणों को									
आईईपीएफ नियमावली के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से कम्पनी									
द्वारा डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संदर्भ में पर्याप्त सूचना माना जायेगा। कृपया ध्यान रहे	6.	मैसर्स आर.एस. डोर	बंधककर्ता :	बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : सम्पत्ति सं. 1125, माप	सांकेतिक	रु. 137.91 लाख +	रु. 65.12 लाख	रु. 6.51 लाख	श्री आलोक बागरी
कि दावा रहित लाभांश राशि तथा आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित इक्विटी शेयरों के लिये कम्पनी		(प्रोप. : राजबीर	श्री राजबीर सिंह	180 वर्ग गज, खेवट/खाता सं. 1636/237 रेक्ट सं. 61,	कब्जा	बैंक के बकायों की			011-29997782
के विरुद्ध कोई दावा नहीं की जायेगी। लेकिन, आईईपीएफ नियमावली के अनुसार प्रपत्र		सिंह) शाखा :	जमानती : सुनीता देवी पत्नी			वसूली तक ब्याज एवं		रु. 0.50 लाख	greaterkailash(
आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ प्राधिकरण के पास आवेदन कर आईईपीएफ प्राधिकरण से उसे वापस		स्पेशलाइज्ड एसएमई	राजबीर सिंह	9/1(1-6),9/2 (5-10), 10(8-0), 26(1-4) निर्मित करने वाला भाग, मेन शाहपुरा रोड, ऊंचा गांव, बल्लभगढ़,		अन्य व्यय			indianbank.co.
प्राप्त करने का दावा किया जा सकता है। यह प्रपत्र आईईपीएफ प्राधिकरण की वेबसाईट		(आईबी)		फरीदाबाद, सामने शैमरॉक स्कूल, सेक्टर 64-65					
www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।				डिवाइडिंग रोड, मौजा ऊंचा गांव, तहसील बल्लभगढ़,					
इस विषय पर किसी जानकारी/स्पष्टीकरण के लिये संबंधित शेयरधारक ctl.compliance@cas-				जिला फरीदाबाद, हरियाणा पर स्थित। सीमाएं : उत्तर : अन्य					
textechnologies.com पर कम्पनी को लिखें अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण				सम्पत्ति, पूर्व : सड़क, दक्षिण : अन्य सम्पत्ति, पश्चिम :					
				अन्य सम्पत्ति					

ई-नीलामी की तिथि एवं समय

पर सम्पर्क करें एवं ईएमडी स्थिति के लिए ibapifin@mstcecommerce.com पर सम्पर्क करें। सम्पत्ति के विवरण तथा सम्पत्ति के फोटोग्राफ एवं नीलामी के नियम एवं शर्तों के लिए देखें : https://ibapi.in तथा इस पोर्टल से संबंधित किसी स्पष्टीकरण के लिए कृपया हेल्प लाइन नं. '18001025026' तथा '011-41106131'

अधिकृत प्राधिकारी, इंडियन बैंक

तिथि : 11.01.2021, स्थान : नई दिल्ली

कम्पनी सचिव

www.readwhere.com

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 11 जनवरी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को

दिल्ली सरकार से एक याचिका के

आवेदन पर विचार करने को कहा

है. जिसमें कोविड-19 महामारी के

नर्सरी की कक्षाओं में दाखिले को

टालने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमर्ति प्रतीक जालान ने दिल्ली

सरकार की ओर से पेश वकील का

बयान दर्ज किया कि नर्सरी में

दाखिले के संबंध में किसी भी फैसले

के पहले याचिकाकर्ता की ओर से

मृहैया कराई गई सुचना या राय पर

प्लेस, नई दिल्ली - 110019।

प्लेस, नई दिल्ली - 110019।

शाखा प्रबंधक

NIIT

सुविधा उपलब्ध करा रही है।

बदलने की अनुमति नहीं होगी।

www.niit.com पर भी उपलब्ध है।

विधिः 11 जनवरी, 2021

स्थानः गुरुकाम

निरीक्षण हेतु इलेक्ट्रॉनिकली उपलब्ध कराये जाएंगे।

शाखा 1 फरवरी, 2021 से नए पते पर चालु होगी।

विचार किया जाएगा।

मद्देनजर 2021-22 शैक्षणिक सत्र में जवाब नहीं आया है जिसके बाद

FICICI Bank

कॉपॅरिट कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक टॉवर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स, मुंबई-400051

शाखा पुनर्वास सूचना

हम आपको यह सूचना देना चाहते हैं कि हम एक शाखा को अधिक सुविधाजनक स्थान

वर्तमान पता: आईसीआईसीआई बैंक लि., 65 ज्योति बिल्डिंग, 66 चंद्रा बिल्डिंग, नेहरू

नया पता: आईसीआईसीआई बैंक लि., एस-1, अमेरिकन प्लाजा, इरोस होटल, नेहरु

लॉकरों को नए स्थान पर भेजने की व्यवस्था की जा रही है, जहाँ आप 1 फरवरी, 2021 से

उनका उपयोग कर पाएँगे। आपकी खाता संख्या और आपको जारी की गई सुरक्षा वस्तुओं में

एनआईआईटी लिमिटेड

CIN: L74899DL1981PLC015865

पंजी. कार्यालयः ८, बालाजी एस्टेट, प्रथम तल,

गुरू रवि दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली 110019

फोनः 011-41675000, फैक्सः 011-41407120

वेक्साइटः www.niit.com; ईमेलः investors@niit.com

ढाक मतपत्र सूचना

सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की

धारा 110 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 (वर्तमान समय में उस पर लागू कोई सांविधिक संशोधन(नों) या अधिनियमन सहित) ("नियम") के साथ पठित

कोंपोंरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी किये गये परिपन्न सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपन्न सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपन्न सं. 22/2020 दिनांक

15 जून, 2020, परिपन्न सं. 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020 तथा परिपन्न सं. 39/2020

दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 ("एमसीए परिपत्र"), भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन

बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 एवं अन्य लागू नियमों तथा

विनियमों के अनुपालन में कंपनी ने सोमवार, 11 जनवरी, 2021 को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को डाक मतपत्र सूचना मेज दी है जिनके नाम बृहस्पतिवार, 31 दिसम्बर,

2020 अर्थात् कट-ऑफ तिथि को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में शामिल हैं और जिन्होंने

कंपनी (भौतिक प्रारूप में धारित शेयरों के संबंध में) और अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी

(हिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में धारित शेयरों के संबंध में) के पास अपने ई-मेल पते पंजीकृत करा

एमसीए परिपत्रों के माध्यम से सदस्यों को डाक मतपत्र सूचना की भौतिक प्रतियां भेजने की

आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। एमसीए परिपत्रों के संदर्भ में, सदस्यों की सहमति या

कंपनी अपने सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटरीज ढिपॉजिटरीज लिमिटेड ('एनएसडीएल') के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") का उपयोग करके अपने वोट देने की

रखें हैं और संबंधित डिपॉजिटरियों द्वारा कंपनी को उपलब्ध कराया गया है।

असहमति को केवल रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से भी लिया जाना है।

4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 के पास भी भेज सकते हैं।

डिपोंजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट कराएं।

है जो शेयरधारक द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली अपना वोट देने के लिए सक्षम होगा।

ढिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने

ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार, 31 दिसम्बर, 2020 को सदस्यों

के रजिस्टर / डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार किये गये लागार्थी स्वामियों के रजिस्टर (इलेक्टॉनिक

शेयरधारिता के मामल में) में दर्ज है, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट

दे सकते हैं। सदस्यों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि को कंपनी प्रदत्त इविवटी शेयर पंजी

में उनके शेयर के आनुपातिक होगा। रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 12 जनवरी, 2021 (प्रात: 9.00 बजे आईएसटी) प्रारंभ होगी और बुधवार, 10 फरवरी, 2021 (साथं 5.00 बजे

आईएसटी) समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया

जाएगा। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद उसे किसी भी स्थिति में बाद में

एनएसढीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लिंक www.evoting.nsdl.com

रिमोट ई-वोटिंग तथा ई-मेल पते के पंजीकरण के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं जानकारी शेयर

घारकों को मेजी गई डाक मतपत्र सूचना में दी गई है और कंपनी की वेबसाइट अर्थात

ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से डाक मतपत्र प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित

कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम आपको अपनी सर्वोत्तम सेवाओं का आश्वासन देते हैं।

पर स्थानांतरित करने जा रहे हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार हैं:

पारा और भी गिर सकता है। चौदह जनवरी

सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है।

याचिकाकर्ता सह वकील रजत

वत्स द्वारा आदेश पर संतोष जताने

के बाद याचिका का निपटारा कर

दिया गया। वत्स ने कहा कि उन्होंने

पिछले साल 12 दिसंबर को

प्राधिकारों के सामने आवेदन दिया

था लेकिन उसपर अब तक कोई

उन्होंने अदालत का रुख किया।

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के

स्थायी वकील रमेश सिंह ने कहा कि

आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए नर्सरी

या प्रवेश स्तर पर दाखिले के लिए

सरकार ने अब तक कोई दिशा

बताया कि दिशा निर्देश जारी हए

याचिकाकर्ता ने अदालत को

निर्देश जारी नहीं किया है।

सर्द हवाएं मैदानों की ओर चलने के साथ सात डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

अदालत ने दिल्ली सरकार से नर्सरी में दाखिले को लेकर अर्जी पर विचार करने को कहा बिना ही कुछ निजी स्कूलों ने संबंध में तीन-चार साल के बच्चों

सार्वजनिक सूचना

है कि नर्सरी कक्षा में दाखिले के जरूरी है।

आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मृल्यांकन 'मैसर्स उर्वशी इन्फ्राटैक प्रा. लिमि. द्वारा "प्लाट नं. १, सेक्टर—१४३ए, जिला गौतमबुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित मिक्स्ड–यज प्रोजैक्ट आईटी /आईटीईएस पार्क'' के लिए पर्यावरणीय खीकृति प्रदान कर दी है।

नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू के मौलिक अधिकारों की रक्षा के

कर दी है। याचिका में कहा गया लिए कुछ निर्देश जारी करना

स्वीकति पत्र की हार्ड प्रति राज्य प्रदेषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश के पास उपलब्ध है और यह राज्ये स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरण, एसआईईएए-उ.प्र. की वेबसाइट पर भी यह सार्वजनिक सूचना नोएडा, उ.प्र. में ऊपर लिखित प्रस्तावित मिक्स्ड-यूज प्रोजैक्ट

आईटी / आईटीईएस पार्क को प्रदान की गई पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन में अधिकत हस्ताक्षरकर्ता

उर्वसी इन्फ्राटैक प्रा. लिमि 11वां तल, गेटवे टावर डीएलएफ सिटी, फेस-III, गुरूग्राम हरियाणा-122002 कैस्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

पंजी. कार्या.: ग्राम नरसिंहपुर, मोहम्मदपुर, पुराना मानेसर रोड, गुड़गाँव, हरि.-122001 Email: info@castextechnologies.com Website: www.amtek.com Tel.: +91-124-2373406 Fax.:- +91-124-2373028

शेयरधारकों के लिये सुचना

(पूर्व में एम्टेक इंडिया लिमिटेड विदित)

(कॉर्पोरेट दिवालिया प्रस्ताव प्रक्रिया के अंतर्गत कम्पनी)

CIN: L65921HR1983PLC033789

निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष में इक्विटी शेयरों के अंतरण के लिये (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार) कैस्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (''कम्पनी'' अथवा ''सीटीएल''), जो बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध है, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित है (CIN No. L65921HR1983PLC033789) जिसका पंजीकृत कार्यालय ग्राम

नरसिंहपुर, मोहम्मदपुर, पुराना मानेसर रोड, गुड़गाँव, एचआर-122001 में है। आपकी जानकारी में लाया जाता है कि सीटीएल माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (''एनसीएलटी'') चंडीगढ़ के आदेश तिथि 20.12.2017 तथा 22.12.2017 के द्वारा दिवाला तथा दिवालिया संहिता 2016 (संहिता) के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवालिया प्रस्ताव प्रक्रिया के अधीन है तथा मैं, दिनकर टी. वैंकटसूब्रमनियन (आईपी पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00003/2016-17/10011), को 22 दिसम्बर, 2017 से दिवाला प्रस्ताव कर्मी (''आईआरपी'') नियक्त किया गया था। पुनः संहिता के प्रावधानों के अनुसार 12 जनवरी, 2018 को आयोजित उसकी बैठक में क्रेडीटरों की सिमिति (सीओसी ने प्रस्ताव कर्मी के रूप में श्री दिनकर टी. वेंकटसुब्रमनियन की नियुक्ति जारी रखी। संहिता के प्रावधानों के अनुसार डक्कन वैल्यु इन्वेस्टर्स एल.पी. (''डीबीआई''

द्वारा जमा की गई प्रस्ताव योजना ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से सीओसी तथा उसके आदेश तिथि 15 दिसम्बर, 2020 के माध्यम से एनसीएलटी द्वारा विधिवत स्वीकृत की गई। एतद्द्वारा यह सूचना ७ सितम्बर, २०१६ से प्रभावी तथा नियमों में परवर्ती संशोधन के अनुसार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 ("आईईपीएफ नियमावली") के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार दी जा रही है। कैस्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (''कम्पनी'') के इक्विटी शेयरधारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आईईपीएफ के नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार ऐसे सभी शेयरों जिसके लिए लगातार सात वर्षों या अधिक से लाभांश का भूगतान नहीं किया गया है अथवा दावा नहीं किया गया है, को कम्पनी द्वारा आईईपीएफ नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट तरीके

एजेन्ट (आरटीए)-बीटल फाइनांसियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेस (पी) लि., बीटल हाउस, 3 रा तल,

99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेन्टर के पीछे, नई दिल्ली-110062, फोनः 011-29961281/82/83,

फैक्स नं. 011-29961284, ई-मेलः beetalrta@gmail.com पर सम्पर्क करें।

श्री दिनकर तिरुवनंदपुरम वेंकटसुब्रमनियन (प्रस्तावकर्मी) स्थानः नई दिल्ली की स्वीकृति से जारी तिथिः 11.01.2021 आईपी पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00003/2016-17/10011

करने के लिए श्री नित्यानंद सिंह, कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस 2668) और उनकी अनुपरिथति में श्री मोहित बंसल, कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एसीएस 46112), मैसर्स नित्यानंद सिंह एंड कं., कंपनी सचिव को जांच के लिए पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। कंपनी के अध्यक्ष या कंपनी द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 12 फरवरी, 2021 को या

वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रकाशित किया जाएगा। इलेक्टॉनिक वोटिंग से संबंधित किसी भी पछताछ या शिकायत के लिए सदस्यगण वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्य) और ई-वोटिंग युजर मैनुअल का अवलोकन करें या एनएसडीएल के

उससे पूर्व डाक मतपत्र का परिणाम घोषित किया जाएगा और इसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों, ढिपॉजिटरीज को दी जाएगी तथा इसके कंपनी की वेबसाइट www.nit.com एवं एनएसढीएल की

अधिकारियों से फोन नं. 1800222990 पर सम्पर्क करें। सदस्यगण कंपनी के पंजीकत कार्यालय पते पर कंपनी सचिव को ई-मेल investors@niit.com के माध्यम से लिख सकते हैं। बोर्ड के आदेश से

> दीपक बंसल कंपनी सचिव

कृते एनआईआईटी लिमिटेड की ओर से

ढाक मतपत्र सचना के माध्यम से और उसमें सदर्गित व्यवसाय की मद के निष्पादन से संबंधित दस्तावेज ई-मेल: investors@niit.com पर अनुरोध भेजने पर कंपनी द्वारा अपने सदस्यों के लिए भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता कंपनी के पास कम्पनी समय-समय पर लागू उपरोक्त नियमावली के अनुसार तथा उसमें दी गई प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे शेयरधारक का नाम एवं पता, पैन/अपनी पहचान एवं पते के प्रमाण के रूप में किसी भी दस्तावेज की स्व-सत्यापित प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र को ई-मेलः investors@niit.com पर मेजकर अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं। सदस्यगण उपरोक्त कथित दस्तावेज के साथ अपना अनुरोध पत्र कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट-अलंकित एसाइनमेंट्स लि., अलंकित हाउस,

कैस्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के लिये (कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया के अंतर्गत कम्पनी) दिव्या रिजवानी